



Plot No. 2-B, Sector - 126, NOIDA-201304, Distt. Gautam Budh Nagar (Uttar Pradesh), Tel.: +91 (120) 6860000, 3090100, 3090200 Fax: +91 (120) 3090111, 3090211, E-mail: iglho@indiaglycols.com, Website: www.indiaglycols.com

IGL/SE/2025-26/26

25th July, 2025

The Manager (Listing)
BSE Limited
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, P.J. Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400 001

The Manager (Listing)
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai- 400 051

Scrip Code: 500201 Symbol: INDIAGLYCO

Sub: Submission of Newspaper Advertisement regarding Special Window for Re-lodgement of transfer request of Physical Shares

Pursuant to the provisions of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, kindly find enclosed herewith the copy of Newspaper advertisement published on 25<sup>th</sup> July, 2025 w.r.t. opening of a Special Window for Re-lodgement of transfer request of Physical Shares of the Company in accordance with SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated 2<sup>nd</sup> July, 2025, in the following newspapers:

- 1. Financial Express (All Editions) in English; and
- 2. Uttar Ujala (Nainital Edition) in Hindi.

We request you to kindly take the above on record.

Thanking you,

Yours truly, For India Glycols Limited

Ankur Jain Head (Legal) & Company Secretary

Encl: As above.

CIN: L24111UR1983PLC009097

Place: Noida, U.P.

Date : 24.07.2025

Up to 17:00 Hr

Manager (CMM)

# **INDIA GLYCOLS LIMITED**

Read Off.- A-1, Industrial Area, Bazpur Road, Kashipur - 244713, Disti, Udham Singh Nagar, Uttarakhand. Phone: +91 5947 269000/269500, Fax: +91 5947 275315/269535 E-mail: compliance.officer@indiaglycols.com; Website: www.indiaglycols.com

### NOTICE TO SHAREHOLDERS

(SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES)

Notice is hereby given that SEBI vide its Circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P. CIR/2025/97 dated 2<sup>rd</sup> July, 2025 has decided to open a special window only for re-lodgement of transfer deeds, which were lodged prior to 1st April, 2019 and rejected, returned/not attended due to deficiency in the documents/process/or otherwise and could not be re-lodged upto 31" March, 2021. The special window shall be open for a period of six months from 7th July, 2025 till 6th January, 2026.

During this special window period re-lodgement of legally valid and complete documents for transfer of physical shares (including those requests that are pending with the listed company/ RTA as on date) will be considered and the shares that are re-lodged for transfer shall be issued only in demat mode after following due process prescribed by SEBI.

Eligible Shareholders may submit their transfer requests along with requisite documents within the stipulated period to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s MCS Share Transfer Agent Limited ("RTA"), 179-180, DSIDC Shed, 3rd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi 110020, email to admin@mcsregistrars.com or the Company Secretary at Plot No. 2-B, Sector-126, Noida-201304, Distt. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, email to compliance.officer@indiaglycols.com

> For India Glycols Limited Head (Legal) & Company Secretary

# Meneuland NEULAND LABORATORIES LIMITED

(CIN: L85195TG1984PLC004393)

Registered office: 11th Floor (5th Level), Phoenix IVY Building, Plot No. 573A-III, Road No. 82, Jubilee Hills, Hyderabad, 500033, Telangana, India Tel: 040 6761 1600, ir@neulandlabs.com, www.neulandlabs.com

ADDENDUM TO THE NOTICE OF THE 415" ANNUAL GENERAL MEETING

The Company has issued a Notice dated May 15, 2025 ("Notice of the 41" AGM") for convening the 41" Annual General Meeting ("AGM") of the Company on Wednesday. July 30, 2025, at 10.00 a.m.(IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM"). The Notice of the 41" AGM was dispatched to the Members on July 4, 2025, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") read with relevant rules and circulars made thereunder.

Members may note that for greater alignment with the Members' interest and to bring more clarity on the Special Resolution as proposed under Item No. 6 of the Notice of the 41° AGM, the Company considered it appropriate to provide additional information to the explanatory statement for Item No. 6 at page 11 to 13 through this Addendum to the Notice of the 41"AGM (Addendum).

This Addendum shall form an integral part of the Notice of the 41" AGM, which has already been circulated to the Members of the Company. The Addendum should be read in conjunction with the Company's AGM Notice and Explanatory Statement dated May 15, 2025. There is no change to the date or time of the meeting, which is to be held as a virtual meeting on Wednesday, July 30, 2025, at 10:00 AM (IST).

This Addendum is also available on website of BSE Ltd. (www.bseindia.com), the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and on the website of the Company (www.neulandlabs.com)

All the other contents of the Notice of the 41" AGM including the Special Resolution as proposed in Item No. 6, shall remain unchanged.

By Order of the Board For Neuland Laboratories Limited

Sarada Bhamidipati

Company Secretary

Place: Hyderabad Date: July 24, 2025

**GOKUL REFOILS AND SOLVENT LIMITED** Corporate Identification Number: L15142GJ1992PLC018745

Regd. Office : State Highway No. 41, Nr. Sujanpur Patia, Sidhpur- 384 151 Gujara Ph.: 079 3501 5555 Email: investor\_relations@gokulgroup.com, Website: www.gokulgroup.com

NOTICE is hereby given that

 The 32" Annual General Meeting (AGM) of the Members of Gokul Refoils and Solvent Limited will be held on Thursday, 21st August, 2025at 10.30 A.M at Registered office of the company at State Highway No - 41, Nr. Sujanpur Patia, Sidhpur-384 151 Gujarat to transact the business as set out in the Notice convening AGM, a copy of which has been posted / emailed to the Members of the Company at their registered address/ email address together with the Annual Report for the financial year 2024-25.

Members are hereby informed that the Notice of the 32" AGM, Annual Report and remote e-voting instructions are also available on company's website at www.gokulgroup.com and also available on the website of CDSL at www.evotingindia.com.

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulations 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide the facility of casting votes using Electronic Voting System from a place other than the venue of the meeting ('remote e-voting') provided by CDSL to its shareholders for transacting the business contained in the Notice.

The remote e-voting period commences on Monday, August 18, 2025at 9.00 a.m. IST and ends on Wednesday, August 20, 2024at 5.00 p.m. IST. No remote e-voting shall be

allowed beyond the said date and time

A person, whose name appears in the register of Members/Beneficial owners as on the cut-off date i.e. August 14, 2025 only shall be entitled to avail the facility of remote evoting or voting at the meeting. Any person who becomes a member of the company after dispatch of the Notice of the

meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. August 14, 2025,, may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if he/she is already registered with CDSL for remote e-voting, then he/she can use his/her existing user ID and password for casting the votes. The members who are entitled to vote but have not exercised their right to vote through

remote e-voting may vote at the Annual General Meeting through Ballot Papers for all business specified in the Notice dated July 15, 2025. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may

be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at toll free no. 1800 22 55 33. 0. The details of the AGM are available on the website of the Company a

www.gokulgroup.com, CDSL at www.evotingindia.com, BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com By order of Board of Directors

For, Gokul Refoils and Solvent Limited Date: 24.07.2025 Company Secretary and Compliance Officer Place: Ahmedabad

Place: Bengaluru

shall not be entitled to cast their vote again.

## 9 TATA TATA POWER

THE TATA POWER COMPANY LIMITED

Corporate Identity No. (CIN): L28920MH1919PLC000567 Read. Office: Bombay House, 24, Homi Mody Street, Mumbai 400 001.

Tel: +91 22 6665 8282 e-mail: tatapower@tatapower.com Website: www.tatapower.com NOTICE TO SHAREHOLDERS

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

Pursuant to SEBI Circular dated July 2, 2025, Shareholders who had lodged their transfer deeds of physical shares prior to the deadline of April 1, 2019 and which were rejected/returned/not attended due to deficiency in the documents/process or otherwise and also missed to re-lodge their request, are granted one more opportunity for re-lodgement of

transfer requests by following the below process Window for July 7, 2025 to January 6, 2026.

re-lodgement Procedure for Submit original transfer documents, along with corrected or missing details to our Registrar and Share Transfer Agent i.e. MUFG Intime India Private Limited (formerly Link Intime India Private Limited)

to Unit: The Tata Power Company Limited be sent on C-101, 1" Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli West

For any queries Helpline no: +91 810 811 8484;

Place: Mumbai

Dated: July 24, 2025

Website: https://in.mpms.mufg.com/spclwindow.html; Email address: investorcomplaints@tatapower.com; Raise service requestion:

https://web.in.mpms.mufg.com/helpdesk/Service\_Request.html For The Tata Power Company Limited

> Vispi S. Pate Company Secretary

**FINE ORGANICS** FINE ORGANIC INDUSTRIES LIMITED CIN: L24119MH2002PLC136003

Reg off: Fine House, Anandji Street, off M G Road, Ghatkopar (East), Mumbai 400 077 Email: investors@fineorganics.com; Web: www.fineorganics.com, Tel.: +91 (022) 21025000

> Notice of the 23<sup>rd</sup> Annual General Meeting of Fine Organic Industries Limited

NOTICE is hereby given that the Twenty-Third Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Fine Organic Industries Limited ("the Company") will be held on Thursday August 21, 2025 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM"), to transact the business as set out in the AGM Notice. The AGM will be conducted in accordance with the relevant circulars issued by the Ministr of Corporate Affairs (MCA) and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) collectively referred to as the "Applicable Circulars". Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In line with the Applicable Circulars, the Annual Report, AGM Notice, and e-voting instructions are being sent electronically to Members whose email addresses are registered with the Depositories or the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), KFin Technologies Limited. Members who have not registered their email may send a request to einward.ris@kfintech.com along with required supporting documents.

The Annual Report, AGM Notice and e-voting instructions will also be available on the websites of the Company at www.fineorganics.com; RTA at https://evoting.kfintech.com NSE: at www.nseindia.com; BSE at www.bseindia.com. Members are requested to refer to the AGM Notice for detailed instructions on attending the meeting via VC/OAVM. Record Date for Dividend Payment

The record date for determining the Members' entitlement to the final dividend for the financial year 2024-25 is Saturday, July 26, 2025. The final dividend of ₹11/- per equity share, as recommended by the Board of Directors, if approved at the AGM, will be paid to those Members whose names appear in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the record date.

The dividend will be paid on and from the sixth day after the conclusion of the AGM. It will be credited electronically to Members who have updated their bank account details. For Members who have not provided or updated their bank details, dividend warrants/demand drafts will be dispatched at the earliest. E-voting

The Company is providing its Members the facility to exercise their voting rights on the resolutions proposed at the AGM through remote e-voting. The business set out in the Notice of AGM may also be transacted through e-voting. The Company has engaged KFir Technologies Limited ("Kfin/KFintech") to provide the remote e-voting facility as well as the e-voting facility during the AGM for Members attending through VC/OAVM. Detailed instructions or remote e-voting and e-voting during the AGM, along with guidelines for attending the meeting via VC/OAVM, are provided in Note Nos. 16 and 17 of the AGM Notice.

helpdesk for Individual Snareholders Holding Securities in Demat Mode:	
NSDL	CDSL
NSDL helpdesk by email to: evoting@nsdl.co.in or call at toll-free no.: 1800 1020 990 or 1800 22 44 30 or call at 022 - 48867000 and 022-24997000	CDSL helpdesk by email to: helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at 022- 23058738, 23058542-43

The remote e-voting facility shall commence on Sunday, August 17, 2025 at 9:00 a.m (IST) and shall end on Wednesday, August 20, 2025 at 5:00 p.m. (IST). Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled for voting.

Only those Members whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on the cut-off date, Thursday, August 14, 2025, shall be entitled to vote through remote e-voting or e-voting during the AGM. Members who become shareholders after dispatch of the AGM Notice and hold shares as

on the cut-off date may obtain their User ID and Password as follows: 1. If the mobile number is registered against the Folio/DPID-Client ID, send an SMS:

MYEPWD <space> E-Voting Event Number + Folio No. or DP ID-Client ID to +91 9212993399

If the email ID or mobile number is registered, visit https://evoting.kfintech.com, click or

"Forgot Password", and enter your Folio No./DPID-Client ID and PAN to generate a password

. Member may send an e-mail request to einward.ris@kfintech.com However, KFin shal

endeavor to send User ID and Password to those new Members whose e-mail IDs are available. The detailed procedure for obtaining login credentials is provided in the AGM Notice available on the Company's website and KFin's e-voting website. Members who have not cast their vote through remote e-voting and are attending the AGN

via VC/OAVM may vote electronically during the meeting. However, Members who have already voted through remote e-voting shall not be allowed to vote again at the AGM though they may attend the meeting For any queries related to e-voting, Members may refer to the 'Help', 'FAQs', and 'Use

Manual' available under the 'Download' section at the bottom of the KFintech website https://evoting.kfintech.comorcallthe KFintechtoll-free number: 1800-3094-001. The Board of Directors has appointed M/s. K S & Associates, Practicing Company Secretaries (C.P. No. 5163), as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair

The Results of the remote e-voting and e-voting during the AGM will be declared within two working days from the conclusion of the AGM. The results, along with the Scrutinizer's Report, will be made available on the Company's website: www.fineorganics.com and on the KFintech e-voting portal: https://evoting.kfintech.com, and will also be communicated to BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited.

For Fine Organic Industries Limited

Date: July 24, 2025 Place: Mumbai

Ms. Pooja Lohor Company Secretary & Compliance Officer

# 囚 hunalt **HMT LIMITED**

CIN:L29230KA1953GOI000748

Nikhilkumar Vadera

HMT Bhavan, No. 59, Bellary Road, Bengaluru, 560 032.

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND **FINANCIAL YEAR ENDED MARCH 31, 2025** 

The Board of Directors of the Company, at its Meeting held on July 23, 2025, approved the Standalone and Consolidated Audited Financial Results for the fourth quarter and financial year ended March 31, 2025.

The results along with the Audit Report have been hosted on the Company's website at https://www.hmtindia.com/wp-content/uploads/ 2025/07/For-Year-2024-2025.pdf and can be

accessed by scanning the Quick Response (QR) Code.



For HMT Limited Sd/-

Rajesh Kohli

Date: 23/07/2025

Chairman & Managing Director (Addl.Charge)

Note: The above disclosure is in accordance with Regulation 33 read with Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.



CIN: L17115TZ1988PLC002269 Phone: 0422-2491504 website: www.acmills.in, email: ambika@acmills.in

NOTICE

SPECIAL WINDOW FOR RE - LODGEMENT OF TRANSFER **REQUEST OF PHYSICAL SHARES** 

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD. PoD/P/CIR/2025/97 dated 02nd July 2025, the Company is pleased to offer an one-time special window for investors to submit re-lodgement requests for the transfer of shares. This special window is open from 7th July 2025 to 06th January 2026 and is specially applicable to cases which were lodged prior to deadline of 1st April 2019 and the original share transfer was rejected/ returned/not attended due to deficiencies in documentation, or were not processed due to any other reason. The Shares re-lodged for transfer will be processed only in dematerialized form during this window

Eligible investors may submit their transfer request along with the requisite documents to the Company's Registrar and Share Transfer Agents, M/s. MUFG Intime India Private Limited (Formerly Link-Intime India Private Limited), Surya 35, Mayflower Avenue, Behind Senthil Nagar, Sowripalayam Road, Coimbatore - 641028, Phone: +91 422 4958995 / 2539835-836, e-mail: rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com and coimbatore@in.mpms.mufg.com within stipulated period

**Note**: All shareholders are requested to update their Email id(s) with Company/RTA/ Depository participants.

For Ambika Cotton Mills Limited P.V.Chandran **Chairman and Managing Director** Place: Coimbatore

Date: 24.07.2025

DIN: 00628479

# CIN: L17111DL1982PLC013790

Regd. Office: 5th Floor, Rajlok building, 24, Nehru Place, South Delhi, New Delhi- 110019 Tele: +91-11-49953454; Email: cs@lendingp Website: www.unifinz.in

NOTICE TO SHAREHOLDERS Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares Notice is hereby given that pursuant to SEBI Circular

SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, the Company has opened a special six-month window for the investors to re-lodge requests for the transfer of physical Shares which were lodged prior to the deadline of April 01, 2019 and rejected/ returned/ not attended due to deficiency in the documents/process or otherwise. The window opens on July 07, 2025, and closes on

January 06, 2026. During this period, all re-lodged securities will only be issued in dematerialized form, and the Standard process for transfer-cum-demat requests will be followed. Shareholders who have missed the earlier deadline of

March 31, 2021 are encouraged to take advantage of this opportunity by furnishing the necessary documents to the Company's RTA i.e. Skyline Financial Services Private Limited. The shareholder must have a demat account and provide their Client Master List (CML), along with the transfer documents and share certificates, while relodging the transfer request with our RTA.

Re-lodgement of legally valid and complete documents for transfer of physical shares, where there is no dispute on ownership will be considered. Investor may submit their request till January 06, 2026 with our RTA at the below mentioned address:

SKYLINE FINANCIAL SERVICES PVT. LTD. D-153/A, 1st FLOOR, OKHLAINDUSTRIALAREA,

PHASE-I, NEW DELHI-110020 +91-11-40450193-97 & 011-26812682-83

Website: www.skylinerta.com/ Email: admin@skylinerta.com

For Unifinz Capital India Limited Ritu Tomar

Date: 25th July, 2025 Company Secretary & Compliance Officer Place: Delhi

KINGS

KINGS INFRA VENTURES LIMITED (CIN: L05000KL1987PLC004913) Registered office: 14 B, 14th Floor, The Atria,

Opp. Gurudwara Temple, Thevara, Ernakulam - 682 015, Tel: 0484 4865823, Email: info@kingsinfra.com, Web: www.kingsinfra.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Section 108, 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('Act'), read together Rule 20 and 22 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, approval of the Members of the Company is being sought by way of Special resolution for the matter mentioned in the Postal Ballot:

(i) The Company as on 24th July, 2025 has completed the dispatch of Notice of Postal Ballot along with explanatory statement to the members whose names appear in the register of members or list of Beneficial Owners as received from National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services Limited (CDSL) as on 23rd July, 2025. The above documents have also been sent in electronic mode to the Members who have registered their e-mail addresses with the Company or with the Depository participants by 24th July, 2025.

(ii) Members whose names appear in the register of members or list of Beneficial Owners as received from National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services Limited (CDSL) as on cutoff date 23rd July, 2025 will be entitled to cast their votes by e-voting. A person who is not a member on the cut-off date should accordingly treat this Notice for information purposes only.

(iii) The e-voting will begin on 25th July, 2025 at 9.00 am and ends on 23rd August, 2025 at 5.00p.m.Members are requested to note that E-voting will be blocked at 5:00p.m. on 23rd August, 2025. (iv)The Postal Ballot Notice along with explanatory statement can also be

downloaded from Company's website at www.kingsinfra.com.

(v)The result of the Postal Ballot will be announced on 25th August, 2025, and will be displayed on the Company's website at www.kingsinfra.com and on website of CDSL at www.evotingindia.com. Such results will also be communicated to BSE Limited.

(vi) The Company has appointed Mr. CA Jomy Saimon FCA, Jomy Saimon & Associates, Chartered Accountant, as Scrutinizer to conduct the e-voting. For any query/grievance connected with the voting by electronic means: MUFG Intime India Private Limited E-mail: coimbatore@in.mpms.mufg.com

Contact person: Mr. K Jayakumar Contact No: +91422 4958995, 2539636 By the order of Board For Kings Infra Ventures Limited

> Nanditha 1 Company Secretary & Compliance Officer

Chandigarh Power Distribution Limited, Chandigarh SCO 33-35, 4th Floor, Sector 34-A, Chandigarh - 160022, India CIN: U31200UP1992PLC014506 **TENDER NOTICE** Date: 25.07.2025 Bids are invited from the eligible bidders for the following tenders: EMD Due Date & Time of Tender Enquiry No. Tender Description (in Lakhs) **Bid Submission** CPDL/FY25-02 Years Rate Contract for the Supply 18.08.2025. 26/11kV RMU/009 of RMU in Chandigarh, CPDL Up to 17:00 Hr CPDL/FY25-02 Years Rate Contract for the Supply 18.08.2025. 26/DTR/010 of DTR in Chandigarh, CPDL Up to 17:00 Hr CPDL/FY25-02 Years Rate Contract for the Supply 18.08.2025,

### PI Industries Limited CIN: L24211RJ1946PLC000469

www.chandigarhpower.com->Tenders

26/66kV CRP/011

Regd. Office: Udaisagar Road, Udaipur - 313 001 (Raj.) Phone: 0294-6651100, Fax: 0294-2491946

of CRP in Chandigarh, CPDL

For tender details and further amendment/corrigendum, please visit our website

Tender fee of individual Tender Document Rs 1180/- (Incl. GST)

E-mail: investor@piind.com, Website: www.piindustries.com

NOTICE TO EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY - TRANSFER OF **EQUITY SHARES TO INVESTOR EDUCATION & PROTECTION FUND ('IEPF')** 

This Notice is published pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ('the Rules'). The Equity Shareholders of PI Industries Limited ('the Company') are hereby informed

that in accordance with the provisions of Section 124(6) of the Act read with Rule 6 of the Rules, the Final Dividend and Interim Dividend declared by the Company during the financial year 2017-18 and 2018-19 respectively lying unpaid / unclaimed for a period of seven consecutive years or more will be transferred to IEPF within 30 days from the due date i.e., September 11, 2025 and November 30, 2025 respectively Further, shares held by the shareholders who have not en-cashed the dividend for the year 2017-18 and 2018-19, and who have not encashed any dividend warrant during last seven years, will also be transferred to IEPF as per the procedure set out in the rules. Details of such dividend and shares transfer are available on the website of the Company viz. https://www.piindustries.com/investor/shareholder-information/otherinformation/faqs/investor-forms/details-of-unclaimed-unpaid-dividends/ All benefits accruing on such shares, if any, shall also be transferred to IEPF in compliance with

accrued thereon, from time to time, after following the procedure laid down in the Rules. Please note that no such claim shall lie against the Company with respect to the unclaimed / unpaid dividends and share(s) transferred to the IEPF pursuant to the Rules. The Company has communicated by email where email address is available and by post where e-mail address is not recorded with Company, to those shareholders whose shares /unpaid dividend are liable to be transferred to IEPF under the said Rules. In this connection, please note the following:

The shareholders may claim the shares transferred to IEPF along with benefits

I. In case the shares are held in physical form: The Company would be issuing

Letter of Confirmation ('LOC') in lieu of the original share certificate(s) for transferring said shares to IEPF and the said original share certificate(s) will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. After issue of LOC, the Company shall inform the depository by way of corporate action to convert such physical shares into demat form and transfer in favour of IEPF Authority. In case the shares are held in demat form: The Company shall inform the

depository by way of corporate action, for transferring such shares to IEPF The shareholders may note that in terms of Section 124(6) of the Act read with the

IEPF Rules, in the event of transfer of shares and unclaimed dividends to IEPF, concerned shareholders are entitled to claim the same by making a request to the Company or KFin Technologies Limited (RTA) for issuance of 'Entitlement Letter' and thereafter on obtaining the same, file an online application in E-Form No. IEPF-5 available on the website at www.iepf.gov.in along with the 'Entitlement Letter' and other requisite documents for claiming such transferred shares and unpaid dividend from the IEPF Authority. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amounts and the shares transferred in favour of the IEPF Authority pursuant to the said Rules. In order to enable sending of notices and other statutory communications/benefits to

have not yet registered their e-mail address, PAN No. and bank account details, to register the same in respect of equity shares held in electronic form with the concerned Depository through their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form by writing to the Company or its Registrar and Share Transfer Agent M/s KFin Technologies Limited (Unit: Pl Industries Ltd.) Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032. Attn: Mr. N. Shiva Kumar, Toll Free No.1800-4258-998. Email: einward.ris@kfintech.com website: www.kfintech.com The concerned shareholders are requested to claim their unclaimed /unpaid dividend

shareholders in electronic form, we request the shareholders of the Company, who

amounts on or before September 8, 2025 for Final Dividend 2017-18 and November 28, 2025 for Interim Dividend 2018-19. In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by September 8, 2025 and November 28, 2025 as aforesaid, the Company shall, with a view to complying with the requirements set out in the Rules, dematerialise and transfer the shares to IEPF Authority by way of corporate action by the due date as per procedure stipulated in the Rules without any further communication to the concerned shareholders.

Date: 24.07.2025

Place: Mumbai

Shruti Joshi Company Secretary & Nodal Officer

SW Infrastructure

Registered Office: JSW Centre, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400 051 Website: www.jsw.in Email: infra.secretarial@jsw.in Tel: 022 4286 1000, Fax: +91-22-4286 3000 NOTICE OF POSTAL BALLOT AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given to Members of JSW Infrastructure Limited (the "Company"), pursuant to Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013 ("the Act"), Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules") and other applicable provisions of the Act and the Rules, General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020 and 17/2020 dated 13th April, 2020 read with other relevant circulars, the latest being General Circular No. 09/2024 dated 19th September, 2024, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"). Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and other applicable laws, rules and regulations including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force and as

amended from time to time), for seeking approval by means of Postal Ballot by electronic means

remote e-voting ("E-voting")process for the following matter

Appointment of Mr. Rajive Kumar (D#N:06620110) as a Non-executive, Independent Director of the Company The Company has completed the dispatch of the Postal Ballot Notice dated 22" July, 2025 ("the Notice") along with Explanatory Statement on Thursday, 24th July, 2025, only through electronic mode

to those Members of the Company whose email addresses were registered with the Depositories / Depository Participant(s) (DPs) as on Friday, 18th July, 2025 ("Cut-off date"), n accordance with the MCA Circulars for holding general meeting/conducting postal ballot process hrough remote e-voting, hard copy of the Postal Ballot Notice along with postal ballot forms and

The Voting Rights of the Members (through E-voting) shall be reckoned with respect of the Equity Shares held by them on Friday, 18th July, 2025 being the 'Cut-Off-Date' fixed for this purpose. Any person who is not a Member on "Cut-Off-Date" should treat this notice for information purpose only

n compliance with the provisions of Section 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the

Companies Act, 2013 and the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended,

Members have been provided with facility to cast their vote electronically through the E-voting services provided by Kfin Technologies Limited ("KFinTech") on resolution set forth in the Notice. The E-voting portal will be open from Saturday, 26th July, 2025 (9:00 a.m. IST) to Sunday, 24th August, 2025 (5:00p.m. IST) (both days inclusive). During this period, Members of the Company

The Notice of the Postal Ballot can be downloaded from the Company's website viz www.isw.in. website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited & National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and at www.nseindia.com respectively & and on the website of the KFinTech at https://evoting.kfintech.com

FCS 8706, COP:3286) as Scrutinizer to conduct the Postal Ballot/ E-voting process in a fair and Members whose email addresses are not registered are requested to update the same with their

their email address/other details

n case of any queries/grievances, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting User Manual available at https://evoting.kfintech.com under help section or write an email at einward.ris@kfintech.com or contact Mr. Ramdas G. Senior Manager - Corporate Registry, KFin Fechnologies Limited, Unit – JSW Infrastructure Limited, at Selenium Tower B, Plot 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500032 or call KFintech on 1800 309 4001(toll free)

In case of any queries in relation to the Resolution proposed to be passed by this Postal Ballot may

Hitesh Kanani Place: Mumbai Company Secretary and Compliance Officer Date: 25th July, 2025 (M. No. F6188)

epaper.financialexpress.com

www.in.mpms.mufg.com

Date: 24.07.2025

Place: Kochi





For **PI Industries Limited** 

JSW INFRASTRUCTURE LIMITED CIN: L45200MH2006PLC161268

Type of resolution

prepaid business reply envelope will not be sent to the Members. The communication of the assent or dissent of the Members would take place through. E-voting system only,

holding shares as on Friday, 18th July, 2025, may cast their vote electronically. The E-voting module shall be disabled by KFinTech for E-voting thereafter.

The Board has appointed Mr. Sunil Agarwal, Practising Company Secretary (Membership Number:

espective DPs. Members whose shares are in demat mode may approach their DPs. for updating

The results of the E-voting will be declared by placing the same along with the Scrutinizer's Report on the Company's website viz www.jsw.in as well as on the website of the stock exchanges i.e. at BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange Limited (www.nseindia.com.) & on the website of KFin at https://evoting.kfintech.com within two working days from the date closure

during working hours on all working days. be addressed to email: infra.secretarial@jsw.in.

For JSW Infrastructure Limited

# 230 पेटी अवैध शराब के साथ एक गिरफ्तार



रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर से सुचना

मिली कि सोनीपत से एक कैन्टर में

अंग्रेजी शराब आ रही है जो यूपी से

दिवयाल रोड होते हुए बांसखेड़ा फ्लाई

ओवर से कड़ा तिराहे होते हुए गढीनेगी

से पीरूमदारा जायेगा। मुखबिर की

सूचना पर पुलिस ने दढियाल फ्लाई

ओवर की तरफ से एक सफेद रंग का

कैबीनेट वाला कैन्टर सं. यूपी19टीए-

जब उसे रोकने का प्रयास किया, तो चालक ने वाहन को रोकने के बजाय

तेज गति से भगा दिया। पुलिस टीम ने

उसका पीछा करते हुए घेराबंदी कर

वाहन को पकड लिया। कैंटर की

तलाशी लेने पर उसके अंदर से 230

पेटी डिस्काउंट प्रीमियम व्हीस्की

कालोनीवासियों ने क्षेत्र में पुलिस

बधवार की रात लक्ष्मीपरपट्टी में

ड्रोन उड़ने की सूचना व चोरों की

तस्तक होने पर दर्जनों कालोनीवासी

घरों से बाहर निकल आये जिसकी

सचना पलिस को दी। सचना पर

बांसफोड़ान चौकी से पुलिस कर्मी

जानकारी जुटाई। इस दौरान लोगों ने

बताया कि उन्होंने क्षेत्र में ड्रोन उड़ते

देखे तथा इस दौरान करीब आधा

दर्जन लोग बैग लिए हुए देखे गये।

पार्षद अब्दुल कादिर ने बताया की

वार्ड में बीते

दिनों से लोगों

द्वारा ड्रोन उड़ने

की सचनाएं दी

जा रही हैं। रात्रि

रात में ड्रोन उड़ने से दहशत

काशीपुर। नगर क्षेत्र के कई भी लोगों ने वार्ड में चोरों की दस्तक

इलाकों में ड्रोन उडने व चोरों की महसूस की। लोगों ने बताया कि

दस्तक से लोगों में भय व्याप्त है। अज्ञात लोगों द्वारा उनके घरों के

गश्त बढ़ाने की मांग करते हुए तथा घरो के अंदर टॉर्च की रोशनी

मौके पर पहुंचे तथा उन्होंने लोगों से क्षेत्र में पिछले तीन-चार दिनों से

कही गई है।

पहरेदारी कर रहे हैं।

कैंटर में भर कर लाई जा रही थी 15 लाख की मदिरा

काशीपुर। पुलिस ने कैंटर में भर कर लाई जा रही 230 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बरामद शराब की कीमत 15 लाख रुपये बताई

कोतवाली पुलिस को बुधवार की 2508 आते दिखाई दिया। पुलिस ने

### सूचना

मेरे आधार कार्ड संख्या 2715 8298 7941 में मेरा नाम त्रुटिवश सुरेश कुमार गलत अंकित है। मेरा सही व वास्तविक नाम सुरेश राज है जिसे मेरे उक्त आधार कार्ड में अंकित कर दिया जाय। **सरेश राज पत्र स्व** श्री शिवचरन, निवासी राजेन्द्र नगर, गली नं. 3, वार्ड नं. 2, हल्द्वानी ( नैनीताल ) उत्तराखण्ड

#### सूचना

यह सूचित किया जाता है अलीगढ एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी का पंजीकृत पता, जो पहले Ward No. 14 Ujala Nagar, Bareilly Road , Indra Naga Haldwani, Nainital Uttarakhand-263139 था, अब परिवर्तित होकर Ward No. 28 Ujala Nagar, Bareilly Road, Indra Nagar West, Haldwani, Nainital Uttarakhand-263139 हो गया है सम्बन्धित सभी व्यक्तियों एवं विभागों से अनुरोध है कि भविष्य में सम्पर्क एवं पत्राचार के लिये नये पते का ही उपयोग करें। **नईम अहमद** सैफी, अध्यक्ष, नईम अहमद सैफी

#### TENDER NOTICE

- Army Public School, Ranikhet invites sealed Tender from reputed & registered firms/ dealers/ distributors for the folloing works/items:-
- Upgradations of Students Washrooms. IPFD for Class Rooms.
- Computers systems & peripherals Development of Music Room & Egpts
- The Tender Form & other details can be obtained from School Office by paying Rs. 500/-(Rupees five hundred only) through crossed deman drat/ cash/ Online in favour of Army Public School, Ranikhet, which will be not

Last date for submitting sealed quotation in quotation box kept in School Office is 10 Aug 2025 by 1700 hrs.

Principal Army Public School, Ranikhet For Chairman

# सूचना

सरस्वती विद्या मंदिर इण्टर कालेज, आदर्श कालोनी, रुद्रपुर (उ.सिं.नं.) की नवीन साधारण सभा का विस्तार होना है। अत: रुद्रपुर के स्थानीय लोगों को सूचित किया जाता है कि साधारण सभा सदस्य हेतु इच्छुक दिनांक 02 अगस्त 2025 तक आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर सायं 05 बजे तक विद्यालय कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें। तत्पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं होगा।

प्रधानाचार्य

सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज, आदर्श कालोनी, रुद्रपुर

#### रामा विजन लिमिटेड सिआईएनः L32203UR1989PLC015645

कार्पोरेट कार्यालयः रामा हाउस, 23, नजफगढ़ रोड, इंडस्टियल एरिया, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली-110015 (भारत) फोन नंबर: 011-45249999 वेबसाइट: www.ramavisionitd.com इंगेल आईडी: investor\_relations@ramavisionitd.com; info@ramavisionitd.com वंजी. कार्यालयः प्लॉट नंबर 10/1, 10/2, खसरा नंबर 302 और 307, हिमालयन गेमा फूड पार्क सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, महुआलेखा गंज, कारीपुर, जिला उपम विह नगर, उत्तराखंड — 244713 फोन नंबर: 05947—297511 इंगेल आईडी: site1@ramavisionitd.com

# मौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः प्रस्तुतिकरण करने के लिए विशेष विंडो

कंपनी के सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी परिपन्न सेबी/एमओ/एमआईआरएसडी/एपआईआरएसडी-पीओडी/पी/परिपन/2025/97 दिनांक 02 2025 के अनुसार, भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः प्रस्तुत करने की सुविधा के लिए 07 जुलाई 2025 से 06 जनवरी, 2026 तक छह महीने की अवधि के लिए एक विशेष विंडो खोली गई है। यह सुविधा केवल 01 अप्रैल, 2019 से पहले दर्ज किए गए उन हस्तांतरण विलेखों के लिए उपलब्ध है, जिन्हें दस्तार्वेजों, प्रक्रिया में कमी या अन्य कारणों से रद्द/वापस कर दिया गया था/जिन पर ध्यान नहीं दिया ग

पात्र शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के सा

अपना रथानांतरण अनुरोध कंपनी के रंजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसकर एजेंट (आरटीए) अर्थात मेसर्स एमयूएफर्ज इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाईट्स, पहली मंजिल, प्लेट नंबर एनएम-2, सीना ब्लॉक एलएससी, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, ईमेल आईडी delhi@in.mpms.mufg.com, फोन नंबर: 011–49411000 निर्धारित अवधि के मीतर जमा करें। उपरांक अवधि के दौरान पुनः प्रस्तुत की गई सभी प्रतिभृतियों का प्रसंस्कृत्स स्थानांतरण—सह—अमैट नोड व माध्यम से किया जाएगा, अर्थात हस्तांतरण के बाद शेयरों का पंजीकरण केवल डीमैट रूप में ही किया जाएगा नोट: सभी शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपनी ईमेल आईंडी कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटर नोटः सभी शेयरधारकों से अनुरोध f प्रतिभागियों के साथ अपडेट कर लें।

कृते रामा विजन लिमिटेड

दिनांकः 24 जुलाई, 2025

स्थानः नई दिल्ली

स्थान : नोएडा, उ. प्र

दिनांक: 24.07.2025

राज कुमार सहगल महाप्रबंधक (विधि) एवं कंपनी सचिव

#### 🚺 इण्डिया ग्लाईकोल्स लिमिटेड सी आई एन: L24111UR1983PLC009097

पंजीकृत कार्यातयः ५-1, इंडस्ट्रियत एरिया, बाजपुर रोड, क्राशीपुर-244713, जिला उषम सिंह नगर, उत्तराखण्ड वृद्भाषः +91 5947 269000/269500; फैक्सः +91 5947 275315/269535 ई-मेल: compliance.officer@indiaglycols.com; वेक्साइट: www.indiaglycols.com शेयरधारकों के लिए सचना

('मौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए विशेष विंडो)

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि, सेबी ने अपने दिनांक 2 जुलाई, 2025 के परिपन्न SEBI/HO/MIRSD/ MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 के माध्यम से केवल उन हस्तांतरण विलेखों को पुनः दाखिल करने वे लिए एक विशेष विंडो खोलने का निर्णय लिया है, जो 1 अप्रैल. 2019 से पहले दाखिल किए गए थे और दस्तावेजों/प्रक्रिया/या अन्यथा में कमी के कारण अस्वीकृत/वापस कर दिए गए/उस पर कोई प्रक्रिया नहीं कि गयी और 31 मार्च, 2021 तक पुनः दाखिल नहीं किए जा सके। यह विशेष विंडो 7 जुलाई, 2025 से 6 जनवरी, 2026 तक छह महीने की अवधि के लिए खुली रहेगी।

इस विशेष विंहो अवधि के दौरान भौतिक शेयरों के हस्तांतरण के लिए कानुनी रूप से वैध और पूर्ण दस्तावेज के पुनः दाखिल करने पर विचार किया जाएगा (जिनमें सूचीबद्ध कंपनी/आरटीए के पास आज की तारीख तक लंबित अनुरोध भी शामिल हैं) और हस्तांतरण के लिए पूनः दाखिल किए गए शेयरों को सेबी द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद केवल डीमैट मोड में जारी किया जाएगा।

पात्र शेयरधारक निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने स्थानांतरण अनुरोध कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड (''आरटीए''), 179-180, डीएसआईडीसी शेड, तीसरी मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-। नई दिल्ली 110020, या <u>admin@mcsregistrars.com</u> इसपर इमेल करके, अथवा कंपनी सचिव को प्लॉट नंबर 2-बी, सेक्टर -126, नोएडा-201304, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश या compliance.officer@indiaglycols.com पर भेज सकते हैं।


हस्ता./

अंकुर जैन प्रमुख (कानूनी) एवं कम्पनी सचिव

# पिकअप से 20 पेटी अवैध शराब पकड़ी

उत्तर उजाला ब्यूरो

रुद्रपुर। पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली पुलिस को बडी सफलता हाथ लगी है। बगवाड़ा चौकी पुलिस ने एक पिकअप वाहन से पंचायत चुनाव में बांटने के उद्देश्य से लाई जा रही 20 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस ने एक युवक को मौके से गिरफ्तार किया है गिरफ्तार युवक की पहचान गुरपाल पुत्र नन्हें निवासी ग्राम मुबारकपुर, थाना बिलासपुर, जिला रामपुर (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार गुरपाल एक पिकअप के जरिए शराब की यह खेप ग्राम शिमला



बसेड़ा, थाना कैराना, जिला शामली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह सोनीपत से शराब ला रहा है तथा यह शराब कैन्टर में मुकेश पुत्र जयपाल व अमित निवासी मआना सोनीपत ने लोड करायी थी और आज पीरूमदारा ले जाने को कहा था। बताया कि

दरवाजे जोर-जोर से खटखटाये गये

मारी गई। वहीं लोगों द्वारा ड्रोन उड़ने

की घटना को मोबाइल कैमरे में भी

कैद किया गया है। पुलिस द्वारा लोगों

को रात्रि गश्त बढ़ाने व अराजक तत्वों

के खिलाफ कार्यवाही की बात

प्रभात कॉलोनी, नई बस्ती, प्रभु बिहार

संदिग्ध लोगों चोरों की दस्तक देखी

गई। चोरों की तस्तक से सहमे लोग

रात को जागकर अपने–अपने घरों की

बीती रात अज्ञात लोगों द्वारा राजकीय

पॉलिटेक्निक में सीसीटीवी व

इमरजेंसी लाइट की तार काट दी गई।

कालोनीवासियों ने चोरों से निजात

दिलाने व रात्रि में पुलिस गश्त बढ़ाने

उधर कटोराताल चौकी क्षेत्र स्थित

2670 से चल रहे थे और मोबाइल पर जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो वह कार सवार अमित, गौरव और मुकेश भी तेजी से भाग गये।

उसके साथ सुरजन नगर, थाना

निवासी गौरव भी है जो उसके आगे-

आगे बलेनो कार सं. युके 18एल-

दी है। पुलिस टीम में उप निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह रिंगवाल, मोहन चन्द्र जोशी, गणेश गिरी आदि शामिल रहे।

बताया कि उसने यह कैन्टर भी

रुद्रपुर। आखिरी चरण में पहुंच

चुके पंचायत चुनाव में अब जुबानी

जंग तेज हो चुकी है। तमाम बड़े

नेताओं ने कुछ सीटों से इस चुनाव को

अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है

ऐसे में अब सभी आमने-सामने हो

गए हैं। पिछले दिनों विधायक तिलक

ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद (उ.प्र.) किराये पर आया है। पुलिस ने आरोपी का संबंधित धाराओं में चालान कर कोर्ट में पेश किया है। पुलिस टीम में एसएसआई अनिल जोशी, चन्दन सिंह व्हटसएप्प कॉल से रास्ता बता रहे थे। बिष्ट, सौरभ भारती, विपुल जोशी, प्रेम कनवाल, जगदीश पपनै, मुकेश कुमार, दीपक जोशी, सचिन कुमार, ज्ञानेन्द्र कुमार व गजेन्द्र गिरी शामिल रहे।

पंचायत चुनाव में जुबानी जंग तेज

हुड़दंग मचाने वाला गिरफ्तार

चमोली। त्रिस्तरीय पंचायत

चुनाव के सफल संपादन के लिए परगना मजिस्ट्रेट तथा तहसील प्रशासन द्वारा मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान राजकीय प्राथमिक विद्यालय छेकुड़ा मतदान केंद्र में एक व्यक्ति द्वारा मतदान प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नारायण बगड़ विकास खंड के अंतर्गत ग्राम देवली निवासी देवा नंद जोशी (उम्र 35 वर्ष) राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र छेकुड़ा तहसील नारायणबगड, शराब के नशे में मतदान केंद्र परिसर में हुड़दंग मचा रहा था। डीडीआरएफ के जवान हरेंद्र सिंह द्वारा उसे समझाने का प्रयास किया गया, तो उसने जवान के साथ गाली–गलौज और हाथापाई शुरू कर दी। मौके की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। घटना की पुष्टि करते हुए उपजिलाधिकारी थराली पंकज भट्ट ने बताया कि आरोपी को नियमित पुलिस नारायणबगड़ के सुपुर्द कर दिया गया है तथा उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं।

# अंशिका इंटरेक्ट क्लब की अध्यक्ष व धैर्य सचिव बने



उत्तर उजाला ब्यूरी

रुद्रपुर। आरएएन पब्लिक स्कूल रुद्रपुर में इंटरेक्ट क्लब का निवेश समारोह हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रोटेरियन राजेन विद्यार्थी, विशिष्ट अतिथि विंग कमांडर एचके राय, रोटेरियन अनिल जोशी व रोटेरियन ओम सिंघला, विशेष अतिथि रोटेरियन अमित सिंगला, मोहित राय, मनोज अग्निहोत्री, मनोज खेडा, जयप्रकाश, सुनील सोनी, सुनील जोशी, अनुप्रिया तथा

स्कूल इंटरेक्ट क्लब का अध्यक्ष तथा धैर्य छाबड़ा को सचिव के रूप में निर्वाचित किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन से किया गया। विद्यालय के निदेशक मोहित राय द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया।

इसके उपरांत नवनिर्वाचित इंटरेक्ट क्लब के सदस्यों को बैज विद्यालय के अध्यक्ष विंग कमांडर आईटीआर लक्ष्य गोयल समारोह में एचके राय ने सभी सदस्यों को उपस्थित रहे। अंशिका सत्संगी को आशीर्वाद दीया।

## मदन लाल क्रिकेट अकादमी ने जीता भैच

रुद्रपुर। रोट्रैक्ट क्लब इनर व्हील क्लब रुद्रपुर और रोटरी क्लब रुद्रपुर के सहयोग से ग्रैंड बॉक्स क्रिकेट टुर्नामेंट का आयोजन आदर्श कॉलोनी स्थित स्पोर्टिको टर्फ में रोट्रैक्ट क्लब रुद्रपुर ने इनर व्हील क्लब और रोटरी क्लब के साथ मिलकर किया। सुबह 6 बजे शुरू हुए इस रोमांचक टूर्नामेंट में 100 से ज्यादा खिलाडियों ने हिस्सा लिया। इसमें कॉलोनियों, स्कुलों, क्रिकेट अकादिमयों और एक विशेष रोट्टैक्टर्स और रोटेरियन्स की संयुक्त टीम ने भी हिस्सा लिया जो प्लेऑफ तक पहुंची और शानदार टीम भावना दिखाई। मदन लाल क्रिकेट अकादमी (एमेनिटी पब्लिक स्कूल) की टीम विजेता बनी और भारतीयम इंटरनेशनल स्कुल की टीम उपविजेता रही, प्रियम को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। पिछले 50 वर्षों से क्लब से जुड़े हुए मुख्य अतिथि रोटेरियन ओम सिंघल ने युवाओं को सेवा व नेतत्व के लिए प्रेरित किया ।समापन समारोह में रोटेरियन अमित सिंगला और विजेता भट्ट ने विजेता टीमों को सम्मानित किया और सभी खिलाड़ियों के खेल-भावना की सराहना की। आयोजन में रोटेरियन डीके भट्ट का विशेष योगदान रहा।

## क्रास कट्टी रेस आज

रुद्रपुर। शौर्य दिवस पर स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर में जिला स्तरीय क्रास कन्ट्री रेस प्रतियोगिता होगी।यह जानकारी देते हुये जिला ऋीड़ाधिकारी जानकी कार्की ने बतायौ कि शौर्य दिवस के अवसर पर कल (आज) 25 जुलाई को प्रात: 7 बजे स्पोर्टस स्टेडियम रुद्रपुर में ओपन आयु वर्ग के बालक व बालिकाओं की क्रास कन्ट्री रेस का आयोजन किया गया है। इस नि:शुल्क प्रतियोगिता में 6-7 स्थान प्राप्त करने वाले विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत

## चन्द्रकाता बाम्बा की आखी से दुनिया देख सकेंगे दो लोग

रुद्रपुर। नेत्रदान कर चन्द्रकांता बाम्बा अमर हो गई। महाराजा अग्रसेन ग्लोबल चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित सीआर मित्तल



नेत्रदान केंद्र के चेयरमैन एसके मित्तल उपस्थिति एवं मेडिकल डायरेक्टर डा. एलएम उप्रेती के निर्देशन में आवास विकास, रुद्रपुर निवासी मनीष बाम्बा एवं दीपक बाम्बा की माता चन्द्रकांता बाम्बा पत्नी स्व. प्रेमपाल बाम्बा के निधन के पश्चात आई टेक्नीशियन मनीष रावत एवं सतेंद्र मिश्रा द्वारा नेत्रदान का कार्य सम्पन्न किया गया। अब उनकी आंखों से दो नेत्रहीन इस अनमोल दुनिया को देख सकेंगे। इस सफल

नेत्रदान के लिए महाराजा अग्रसेन ग्लोबल चेरिटेबल ट्रस्ट के एसके मित्तल, ओमप्रकाश सिंघला, देवीशंकर अग्रवाल, अर्जुन गुप्ता, अशोक बंसल ने परिवार के सदस्यों मनीष बाम्बा, दीपक बाम्बा, जुगल बाम्बा, संजय जुनेजा, विनीत बत्रा, संदीप चावला, विकास भूसरी आदि का आभार व्यक्त किया।

## प्रधानाचार्य भर्ती नियमावली 2022 को रदद करने की माग

चमोली। राजकीय शिक्षक संघ की चमोली जिला कार्यकारिणी ने प्रांतीय कार्यकारिणी को ज्ञापन प्रेषित कर मांग की है कि प्रधानाचार्य विभागीय भर्ती प्रकाश सिंह चौहान और जनपद अध्यक्ष प्रदीप भंडारी ने बताया कि मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखण्ड सरकार की कैबिनेट द्वारा इस नियमावली के कुछ संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किए गए हैं। राशिसं के महामंत्री और अध्यक्ष ने कहा जनपद चमोली की कार्यकारिणी इसका विरोध करती है। बताया कि इससे विभाग मे शिक्षकों के प्रमोशन के अवसर खत्म होंगे। सरकार पहले ही शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग बनाकर शिक्षकों के लिए विभाग में पद्दोन्नति के अवसरों को सीमित कर चुकी है। उन्होंने बताया कि वर्तमान मे प्रदेश मे प्रधानाचार्यों के 1386 पद स्वीकृत हैं जो कि शत प्रतिशत पद्दोन्नति से ही भरे जाते हैं। हजारों शिक्षक प्रधानाध्यापक पद( जो कि प्रधानाचार्य का फीडर पद हैं) हेतु निर्धारित न्युनतम अहर्ताओं को पूरा करते हैं।शत प्रतिशत पद्दोन्नति से सरकार पर कोई भी व्यय भार नहीं पड़ेगा। सरकार बहुत कम समय में प्रधानाध्यापकों के पदों पर प्रमोशन कर उन्हें शिथिलीकरण व्यवस्था का लाभ देकर प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों को भर सकती है। वर्तमान में प्रदेश मे लगभग 90 फीसदी प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों के पद रिक्त चल रहे हैं। जनपद चमोली में प्रधानाचार्यों के 128 स्वीकृत पदों मे से मात्र 8 स्थाई प्रधानाचार्य कार्यरत हैं इसी प्रकार 78 प्रधानाध्यापकों मे से मात्र 1 स्थाई प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं।

# भोपाल गैस त्रासदी से जुड़ी याचिका पर विचार नहीं

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को गए। इसे दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक आपदाओं में एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में गंभीर रूप से घायल हुए कई लोगों को कम मुआवजा दिया गया, क्योंकि उन्हें अस्थायी विकलांग या मामूली रूप से घायल व्यक्ति के तौर पर गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था।

प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने याचिकाकर्ता संगठनों को इस मामले में संबंधित उच्च न्यायालय का रुख करने की स्वतंत्रता दे दी।

पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि उच्चतम न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं किया है। भोपाल में युनियन कार्बाइड के कारखाने से 2-3 दिसंबर, 1984 की दरम्यानी रात अत्यधिक विषैली गैस मिथाइल की मौत हो गई और पांच लाख से ज्यादा लोग अपंग हो तरह किया गया है।

से एक माना जाता है। जब मामला पीठ के समक्ष सनवाई के लिए आया, तो प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि दशकों बीत चुके हैं। याचिकाकर्ता संगठनों के वकील ने कहा कि उन्होंने याचिका में सीमित अनरोध किया है और वह किसी मामले को पुन: खोलने की मांग नहीं कर रहे हैं।

याचिकाकर्ताओं ने केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को यह निर्देश देने की मांग की है कि वे उन लोगों की पहचान करके उन्हें मुआवजा देने के लिए उचित कदम उठाएं, जिन्हें भोपाल गैस रिसाव आपदा (दावों का निपटान) अधिनियम, 1985 और योजना के प्रावधानों के तहत अस्थायी विकलांगता या मामुली रूप से चोटिल व्यक्ति के तौर पर गलत वर्गीकृत किए जाने के कारण कम मुआवजा दिया गया था। वकील ने कहा कि गैस त्रासदी के कारण बड़ी संख्या में लोग गुर्दे संबंधी रोगों और कैंसर से पीड़ित आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ, जिसके बाद 5,479 लोगों हुए हैं और उनका इलाज मामूली रूप से घायल लोगों की

# मृत या पलायन कर चुके लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं रह सकते : सीईसी



नयी दिल्ली। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को आलोचनाओं का सामना कर रहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बृहस्पतिवार को कहा कि आयोग किसी प्रभाव में आकर मृतकों, स्थायी रूप से पलायन कर चुके लोगों या कई जगहों पर मतदाता के रूप में दर्ज लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं होने दे सकता।

उनकी यह टिप्पणी विपक्षी दलों में मतदाता सूची के जारी विशेष गहन द्वारा बिहार की मतदाता सूची के पुनरीक्षण के तहत घर-घर जाकर विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर जांच करने पर निर्वाचन अधिकारियों वंचित हो जाएंगे। आयोग के अनुसार, मृत्यु हो चुकी है।

आयोग पर बढते हमलों के बीच आई ने अब तक पाया है कि 52 लाख से है। विपक्ष का दावा है कि इस कदम अधिक मतदाता अपने पते पर मौजूद से करोड़ों पात्र नागरिक मताधिकार से नहीं थे और 18 लाख मतदाताओं की

आयोग ने बताया है कि बीएलओ/बीएलए द्वारा गलत तरीके जाकर गहराई से सोचना होगा। बिहार का नाम हटवा सकें।

## 🔊 😯 🕒 🐯 🧶 🛂 🗓 🗓 गुक्रवार 25 जुलाई, 2025

दिन शानदार रहने वाला है। व्यापार में बड़ा धन लाभ होगा। पारिवारिक माहौल खुशियों से भरा रहेगा। नौकरी में उन्नति के योग हैं। दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। प्रॉपर्टी के कारोबार में अच्छा

धन लाभ होगा। जीवनसाथी के साथ रिश्तों में सधार होगा। मिथुन-आज दिन अनुकूल रहेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से लाभ की स्थिति

है। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। संतान से शुभ समाचार मिलेगा दिन उत्तम रहने वाला है। भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। किसी समस्या का समाधान होगा। घर में आज चहल-पहल बनी रहेगी

आज का दिन मिला-जुला रहेगा। जीवनसाथी से उपहार मिल सकता है। सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को मान-सम्मान मिलेगा **कन्या**- दिन बेहतरीन रहने वाला है। व्यापार में धन लाभ होगा। परिवार

में खुशियां बनी रहेगी। आज आध्यात्म में रुचि ज्यादा रहेगी। आज नयी खुशियां मिलेंगी। नये काम की शुरुआत कर सकते हैं

व्यापारिक लेन-देन में बड़ा फायदा होगा। रिश्ते मजबूत बनेंगे। वृश्चिक-दिन अनुकूल बना रहेगा। किसी जरूरी काम को परिवार के सहयोग से पूरा करेंगे। रचनात्मक कार्यों से ज्यादा ज्यादा फायदा होगा।

दिन मिला–जुला रहेगा। कार्य में शारीरिक श्रम की अधिकता रहेगी परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें।

**मकर**- आज नए अवसर प्राप्त होंगे। भविष्य की योजनाएं बना पायेंगे। कारोबारी गतिविधियों में बदलाव कर सकते हैं। लंबी यात्रा के योग हैं। दिन शानदार रहेगा। बिजनेस में नये ऑफर मिलने के योग हैं। परिवार

दिन सकारात्मक रहेगा। कार्यों में किसी करीबी की मदद मिलेगी दाम्पत्य जीवन में खुशियां आयेंगी। बेहतरीन अवसर मिलेंगे।

का पूरा सहयोग मिलेगा। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

## संस्थापकः स्व.जी.एस.भण्डारी

जी.एस.भण्डारी एण्ड को. के लिए प्रकाशक मुद्रक डा.उषा किरन भण्डारी द्वारा उत्तर उजाला प्रेस, उजाला नगर बरेली रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) से मुद्रित व भण्डारी भवन, मल्लीताल, नैनीताल (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित। मुख्य सम्पादक : डा. उषा किरन भण्डारी

फोन : हल्द्वानी 05946-252975, पंजी.सं. आर.एन.32942/77 E-mail: uttarujala7@gmail.com website: www.uttarujala.com

तैयार की जा रही शुद्ध मतदाता सूची किसी भी मतदाता या किसी मान्यता निष्पक्ष चुनाव और मजबूत लोकतंत्र प्राप्त राजनीतिक दल को 1 अगस्त से लेकर की नींव नहीं है? उन्होंने कहा कि 1 सितंबर तक एक महीने का समय पहले बिहार में और बाद में पूरे देश में अपात्र लोगों को वोट देने की अनुमित नियुक्त बूथ लेवल अधिकारियों और देना संविधान के विरुद्ध है। उन्होंने पार्टियों के बूथ लेवल एजेंटों द्वारा रेखांकित किया, इन सवालों पर, छोड़ दिये गए किसी भी पात्र मतदाता किसी न किसी दिन, हम सभी और का नाम शामिल करवा सके या

उन्होंने कहा, क्या निर्वाचन आयोग द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से

भारत के सभी नागरिकों को

एसआईआर के निर्देशों के अनुसार, मिलेगा ताकि वे निर्वाचन आयोग द्वारा

राजनीतिक विचारधाराओं से परे से शामिल किए गए किसी मतदाता

#### राज बेहड़ ने कहा था कि क्रैया सीट से भाजपा समर्थित प्रत्याशी कोमल समस्याएं सड़क, नाली, पानी, राशन चौधरी शहरी और बाहरी प्रत्याशी हैं, कार्ड व अन्य का वह प्राथमिकता से ऐसे में जनता उन्हें नकार देगी। ग्राम छतरपुर में जनसंपर्क के प्रत्याशी कोमल चौधरी से बात की

गई तो उन्होंने कहा कि वह कहीं भी शहरी और बाहरी नहीं है वह गांव की ही बेटी और बहु है। मटकोटा में वह रहती हैं और धर्मपुर में उनका ननिहाल है, ऐसे में यह आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर विश्वास जीत कर प्रत्याशी घोषित किया है जिस पर वह खरा उतरने का प्रयास करेंगी। जनता की मूलभूत

विशेष गहन पुनरीक्षण के

खिलाफ संसद भवन

परिसर में विरोध प्रदर्शन

लोकतंत्रम् एम् त्राम् । ये

ऐसे में उन्हीं को ही यह चुनाव लड़ने दें। उपेन्द्र चौधरी कहा कि विधायक संदीप चीमा यहां से चुनाव लड़ते तो

थे। बैनर में लोकतंत्र की गलत वर्तनी

को लेकर विपक्षी दलों का मजाक

उड़ाते हुए, भाजपा की आईटी शाखा

के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर

लिखा, लोकतंत्र होता है, न कि

की तस्वीर पोस्ट करते हुए भाजपा ने

निकल पड़े हैं। इस मुद्दे पर भाजपा क

उनके सामने एक बड़ा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा,

था - एस आई आर - जानते, वे लोकतंत्र पर पाठ पढ़ाने

खडे होकर विरोध प्रदर्शन वे परिवार तंत्र और आपातकाल की करना है।

इंडिया गठबंधन के विरोध प्रदर्शन

बैनर था जिस पर लिखा जो लोग लोकतंत्र लिखना तक नहीं विरोध प्रदर्शन कर रहा है और आरोप

विपक्षी सांसद संसद के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले

मकर द्वार की सीढ़ियों पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मतदाताओं को मताधिकार से विचत

समाधान करेंगे और हर संभव क्षेत्र को आगे लेकर जाएंगी। भाजपा प्रत्याशी के पति उपेन्द्र चौधरी ने कहा उनकी यह राजनीतिक शुरुआत है लेकिन विधायक बेहड़ एक दिग्गज नेता रहे हैं और उन्हें ऐसी बातें करना शोभा नहीं देती। यह पंचायत चुनाव कोमल चौधरी और सुनीता सिंह के बीच में है के ही कारण मजबूत प्रत्याशी संदीप सिंह, नितिन सिंह, शमशेर भट्ट, रवि चीमा का टिकट काटा गया यदि रावत, संदीप रावत, देवेंद्र भट्ट

चनाव एक तरफ है और भाजपा 100 प्रतिशत जीत हासिल करेगी क्योंकि समाज का हर वर्ग उनके साथ है। चौधरी ने कहा यदि विधायक को किसी बात पर आपत्ति है तो वह आमने-सामने आकर बात करें। इस दौरान उन्होंने छतरपुर में घर-घर जाकर जनसंपर्क किया इस मौके पर चुनाव प्रभारी धीरेंद्र मिश्रा टिंकू, हरीश भट्ट, जितेंद्र सिरोही, नरेंद्र सिरोही.

कांग्रेस को दोष नहीं दिया जा सकता।

वे न तो लोकतंत्र लिख सकते हैं और

विश्वास करते हैं। निश्चित रूप से, वे

उसे ठीक से लिख सकते हैं और बचा

सकते हैं। विपक्षी दलों का इंडिया

लगा रहा है कि निर्वाचन आयोग द्वारा

वे परिवार तंत्र और आपातकाल में

न ही बचा सकते हैं।

लोकतंत्र की वर्तनी को लेकर विपक्षी गठबंधन संसद के दोनों सदनों में

तगड़ी फाइट होती लेकिन अब यह

# प्रदर्शन को लेकर भाजपा का विपक्ष पर कटाक्ष वोटबंदी बंद करो जैसे नारे लगा रहे जिसमें वे विश्वास करते हैं, लोकतंत्र

ने संसद परिसर में विरोध-प्रदर्शन के कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष बैनर को लेकर विपक्षी दलों पर प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्षी कटाक्ष करते हुए बृहस्पतिवार को कहा इंडिया गठबंधन के कई सांसदों ने कि जो लोग उक्त शब्द लिखना भी बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा किये नहीं जानते, वे जा रहे मतदाता सूची के

लोकतंत्र का कार्यालय नगर पालिका परिषद, नैनीताल

पत्रांक-917/**X-**6 दिनांक: 23.07.2025

 श्री दयािकशन एवं श्री दीपक चन्द्र पत्रगण स्व. श्री रेवाधर जोशी निवासी नैनी विहार सी 10 का 1/3 भाग ाल्लाताल ननाताल। २. श्रा दिनश चन्द्र जोशी, पुत्र स्व. श्री रेवाधर जोशी निवासी नैनी विहार सी 10 का 1/3 भाग मल्लीताल नैनीताल। ३. श्रीमर्त हेमा जोशी पत्नी श्री दया किशन निवासी नैनी विहार सी 10 का 1/3 भाग मल्लीताल नैनीताल, 4. श्रीमती किरन जोशी पत्नी श्री दिनेश चन्द्र जोशी, निवासी नैनी विहार सी 10 का 1/3 भाग मल्लीताल नैनीताल। 5. श्रीमती गीता जोशी पत्नी श्री दीपक चन्द्र जोशी, निवासी नैनी विहार सी 10 का 1/3 भाग मल्लीताल नैनीताल आपको नगर पालिका अधिनियम

की धारा 147 की उपधारा (1), (2) व (3) के अधीन एतद नोटिस द्वार सचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद नैनीताल के भवन और भूमि सम्पत्ति मूल्यांकन एवं कर निर्धारण सूची में क्षेत्र सं. 4 भवन सं. 228/2 नैनी विहार सी 10 का 1/3 भाग मल्लीताल नैनीताल जो कि श्री रेवाधर जोशी पत्र श्री प्रेम बल्लभ जोशी के नाम से दर्ज चली आ रही है के सम्बन्ध में निम्नलिखित संशोधन और परिवर्तन करने का निश्चय किया गया है। उक्त सम्पत्ति की प्रविशे मूल्यांकन एवं कर निर्धारण सूची में की जाये तथा इस सम्पत्ति में आपक नाम स्वामी के रूप में अंकित किय जाए तथा इस सम्पत्ति का वार्षिक मूल्यांकन एवं वार्षिक भवन कर व सफाई कर नियमानसार निर्धारित

केया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त सम्पत्ति के स्वामी श्री रेवाधर जोशी पुत्र श्री प्रेम वल्लभ जोशी की मृत्यु हो जाने के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्र के साथ संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र अनापत्ति शपथ पत्र, एव उत्तरजीवी प्रमाण पत्र के आधार पर उनके वर्तमान उत्तराधिकारी श्री दयाकिशन एवं श्री दीपक चन्द्र पुत्रगण स्व. श्री रेवाधर जोशी का नाम पालिका अभिलेखों में स्वामी के रुप में दर्ज किया जाना प्रस्तावित है।

अत: उपरोक्त प्रस्तावित संशोधन और परिवर्तन या मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में आपको कोई आपत्ति हो तो स्पष्ट तर्क संगत तथ्यों साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति लिखित रूप में स्वयं या अपने अभिकर्ता द्वारा इस नोटिस की तामिल के दिनांक से एक माह के अंदर अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करें अन्यथा निर्धारित अवधि समाप्त होने वाले दिन या उसके बाद संशोधन और परिवर्तन या मृल्य निर्धारण जैसी भी स्थिति हो, का<sup>ँ</sup> अधिप्रमाणीकरण कर दिया जायेगा।

अधिशासी अधिकारी